



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-18062025-263944
CG-UP-E-18062025-263944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947

No. 2643]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 16 अप्रैल, 2025

का.आ. 2708(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हाथरस मेमौजूदा नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्ग पर गतिसीमा को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने की परियोजना के लिए सब सेक्शनिंग व पैरललिंग पोस्ट (SSP) का निर्माण किये जाने हेतु, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से तीस दिन की अवधि के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिलाधिकारी/सासनी/वि०भू० अ०अ० हाथरस, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत

रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी कोई जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, अपने आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार, धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिलाधिकारी/सासनी/वि०भू० अ०अ० हाथरसके कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति के द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर मध्य रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हाथरसमें मौजूदा नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्ग पर गतिसीमा को 160 किमी० प्रति घण्टा/200 किमी० प्रति घण्टा करने की परियोजना के लिए जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण।

जिला-हाथरस

राज्य-उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं०	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हे०मे)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हाथरस	हाथरस	पुराकलां	385	0.0151	कृषि भूमि
2	हाथरस	हाथरस	पुराकलां	389	0.0219	कृषि भूमि
3	हाथरस	हाथरस	पुराकलां	390	0.0180	कृषि भूमि
				योग	0.0550	
			कुल योग		0.0550	

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.- एच. क्यू. शून्य. सी. ई. एल. ई. (मिस्क)/133/2023-ओ./ओ.डिप्टी.सी. ई. ई./ कांस्ट/सी.एन.बी. कम्प्यूटर सं. 98960]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 16th April, 2025

S.O. 2708(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) & Railway Amendment Act, 2008 (11 of 2008) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land situated at District Hathras of the state of Uttar Pradesh, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto is required for the purpose of execution of the North Central Railway's Special Railway project, namely Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Howrah route (incl. Kanpur-Lucknow) in the district of Hathras in the State of Uttar Pradesh, for Sub Sectioning and Paralleling Post hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Newspapers, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Section 20D sub-section (1) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Magistrate, Sasni/SLAO Hathras Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final u/s 20D sub section (3).

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent Authority/Sub Divisional Magistrate, Sasni/SLAO Hathras.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Hathras of the State Uttar Pradesh for Special Railway Project namely Raising of Speed to 160kmph/200kmph on existing New Delhi-Hawrah route (incl. Kanpur-Lucknow) of North Central Railway.

Name of District- Hathras

Name of State-Uttar Pradesh

Sr. No.	Tehsil	Pargana	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (in hect.)	Nature of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hathras	Hathras	Purakalan	385	0.0151	Agricultural
2	Hathras	Hathras	Purakalan	389	0.0219	Agricultural
3	Hathras	Hathras	Purakalan	390	0.0180	Agricultural
				Total	0.0550	
			Grand Total		0.0550	

[e. F.No. NCR-HQ0CELE(MISC)/133/2023-O/o Dy.CEE/C/CNB Computer No.98960]
VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)